APOORVA LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

Corporate Office: C-1/9 First Floor, Sector – 31, GautamBudh Nagar, Noida, 201301 CIN No. L74899DL1983PLC016713 Email :apoorvaleasing@gmail.com
PH # 0120 - 4372849

To

The Department of Corporate Services, BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street Mumbai- 400001
Scrip Code- 539545

Dear Sir/Madam,

Sub: Intimation of Publication of audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of newspaper publication of audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year year ended on September, 2024 as published in the "The Jansatta" Hindi and "Financial Express" as English edition

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Apoorva Leasing Finance & Investment Company Limited

р

Nitin Dubey Company Secretary

FORMS NEW DEPT OF GOVT EFFICIENCY

Trump picks Musk: 5 areas where their bond will be tested

From China to EVs, tax and job-cuts to Starlink in Ukraine, SpaceX and govt

ANIL SASI New Delhi, November 13

US PRESIDENT-ELECT DON-ALD Trump has picked Elon Musk, the world's richest man and a key backer, to lead a newly created Department of Government Efficiency (Doge) for his incoming administration. The acronym, incidentally, refers to Musk's favourite cryptocurrency Dogecoin.

Trump also announced that Vivek Ramaswamy, an investor and his rival in the Republican primaries, will work with the SpaceX and Tesla founder on the project to "dismantle" bureaucracy and provide "external advice" to the White House on executing "large scale structural reform."

He likened the initiative, an idea mooted by Musk himself, to the "Manhattan Project" (the World War II project led by the US to produce the first nuclear weapon) saying "this will send shockwaves through the system, and anyone involved in Government waste, which is a lot of people!"

While Musk was the single largest contributor and a fervent Trump proponent, there are five contradictions in this developing symbiotic relationship which both sides will have to work with – or around. Indeed, one can reinforce the other.

China: Trump is increasingly filling his incoming administration with China trade and security hawks while Musk has a cordial working relationship with high-ranking officials in China where he established Tesla as the country's first fully foreign-owned automaker in 2018. Chinese state media has often cited Tesla as an example of successful trade cooperation between Beijing and Washington.

China is Tesla's secondlargest market only after the US and the Tesla Gigafactory in Shanghai, which started production in 2020, is the carmaker's largest production centre in the world. Tesla sold

EFFICIENCY EFFORT

■ Billionaire Elon Musk (left) and entrepreneur Vivek Ramaswamy will

lead a new Department of Government Efficiency tasked to "dismantle Government Bureaucracy, slash excess regulations and cut wasteful expenditures



■ The panel would partner with the Office of Management and Budget and their work will conclude no later than July 4, 2026

■The structure may allow Musk to avoid resigning from his companies including Tesla and SpaceX

■ During his run, Ramaswamy, 39, was loathe to criticise Trump, praising the Republican standard-bearer

some 600,000 EVs in China last year. If the world's two biggest economies were to run into rough weather, how Musk firewalls his interests could set the template for others.

Trumponomics: Musk has expressed doubts over the basic tenets of Trump's economic plans including his call for mass deportations of undocumented immigrants, a range of tax tweaks including a fresh dose of his 2017 tax cuts, and higher tariffs on practically all imports. Barely a week before the elections, in a response to a pseudonymous X account that alluded to an "initial severe over-reaction in the economy" and the "market tumbling" if Trump were to be elected and roll out his plan, Musk had a three-word response: "Sounds about right".

Climate change: Trump's climate change denial and consistent ridicule of EV manufacturing flies in the face of Tesla's main business. Trump has vociferously supported internal combustion engine car makers, batted for the Detroit Big Three (GM, Ford and Chrysler) and has repeatedly promised to end federal support for EVs. For Musk, all of this presents a challenge. His personal wealth is tied largely in Tesla stock and his EV hard sell is fundamentally rooted in the environmentally-friendly pitch of battery electric cars that Tesla makes. The Detroit three are among Tesla's com-

petitors. Any paring down of

federal subsidy could be a serious headwind for Tesla especially when EV sales are seeing a temporary slowdown. **Starlink, SpaceX:** Musk's

Starlink satellite internet service has provided a clear frontline advantage to Ukraine since the 2022 Russian invasion, permitting Kyiv to share real-time drone feeds between battlefield units and keep communication lines open where war has disrupted cell phone services. Given Trump's perceived rethink on Russian president Vladimir Putin, Starlink's support to Ukraine has already seen some recalibration.

Cutting jobs: For all the talk of streamlining government, Musk's impulsive firings in his companies may not square with Trump's employee-friendly pitch. Indeed, during his campaign, Trump championed the cause of American workers, eliciting support from prominent union leaders ostensibly campaigning against mass lay-offs at American companies. He has also drummed up support among steel worker groups and projected himself as a protector of American jobs.

The impulsive firings by Musk across all his companies run counter to this. In January this year, SpaceX was accused by a US labour agency of illegally firing eight employees for circulating a letter calling Musk a "distraction and embarrassment."

British writer Harvey wins Booker Prize for 'Orbital'

ADITI KHANNA London, November 13

BRITISH AUTHOR SAMAN-THA Harvey has won the 2024 Booker Prize for her ambitious and beautiful 'Orbital', which becomes the first novel set in space to win the 50,000-pound literary prize selected from a historic shortlist that was dominated by women this year.

'Orbital', the biggest-selling book on the shortlist in the UK, takes place over a single day in the life of six astronauts and cosmonauts aboard the International Space Station who observe 16 sunrises and sunsets on Earth spinning past continents and cycling past seasons.

It was named the winner at a ceremony at Old Billingsgate in the City of London on Tuesday evening after the judges described it as a compact yet beautifully expansive novel which invites readers to observe Earth's splendour whilst reflecting on the individual and collective value of every human life.

"I originally thought, 'Why on earth would anybody want to hear from a woman at her desk in Wiltshire writing about space, imagining what it's like being in space when people have actually been there'," said Harvey, who dedicated her award to everybody who "speaks for and not against the Earth".

pastoral – a kind of nature writing about the beauty of space," said the nearly 50year-old author. She is the first British writer since 2020 to win the prestigious Booker. At just 136 pages long, the winning title is the second-

"I thought of it as space

shortest book to win the prize and covers the briefest time frame of any book on the shortlist, taking place over just 24 hours. "Samantha Harvey has

written a novel propelled by the beauty of 16 sunrises and 16 sunsets. "Everyone and no one is

the subject, as six astronauts in the International Space Station circle the Earth observing the passages of weather across the fragility of borders and time zones.

"With her language of lyricism and acuity, Harvey makes our world strange and new for us," said artist-author Edmund de Waal, chair of the 2024 Booker judges. —PTI

How Aravindh Chithambaram overcame his 'inner turmoil'

AMIT KAMATH November 13

AFTER ARAVINDH CHITHAMBARAM claimed the title at the recent Chennai Grandmasters event, his coach RB Ramesh and Aravindh were called on stage for a photograph.

Not content with a regular master-disciple photograph, Ramesh and Aravindh opted for something more unconventional. He hoisted the 25vear-old in the air as Aravindh held his silverware, like wrestlers do.

For both mentor and disciple, this was a moment that meant a lot.

"It was a very emotional moment for me also. Aravindh is like my son. I feel very happy that he's going further and further upwards," says Ramesh.

To win the title, Aravindh prevailed over an elite field that comprised players of the calibre of Arjun Erigaisi, Levon Aronian, Vidit Gujrathi and Parham Maghsoodloo. He defeated Arjun and Parham in the event in classical games and endured a tense three-way tiebreak against Arjun and Aronian to claim the title.

Aravindh was one of the first prodigies in Ramesh's training group (which also included the likes of Praggnanandhaa and Vaishali R) and is someone Ramesh calls the "most talented" players he's trained.

Just how talented Aravindh was in his early days can be gauged by one tale that Ramesh tells with particular glee. Back in 2013, Ramesh was doing commentary for the Viswanathan Anand versus Magnus Carlsen world championship battle with Susan Polgar. One of those days, he

invited Polgar to his home for a meal. During that, he boldly proclaimed that he was teaching a 14-year-old kid



who had not even achieved a single IM norm, but if he could secure the funds to play tournaments in Europe, he would become a grandmaster in six months.

Aravindh had lost his father at the age of three and was raised by his mother. So finances to play events abroad were always thin.

"Polgar said maybe he can become an IM. But I don't think he can become a GM in six months," Ramesh recollects. Some time later, Aravindh joined them for dinner and revealed that he had won the open GM tournament happening alongside the world championship and, in the process, had earned his first of three norms to become a grandmaster.

Now seeing the boy's potential with her own eyes, Polgar told Ramesh that he should speak about him in commentary during the next

world championship game. That's exactly what Ramesh did and it caught the eye of ChessBase owner Frederic Freidel, who put together a fundraiser for Aravindh which ended up collecting \$10,000 in the matter of a few days.

actually "Aravindh became a GM in six months after that," beams Ramesh.

But since becoming grandmaster, Aravindh's career never took off in the way everyone thought it would. Ramesh attributes that to his "inner turmoil".

"There are times when he will feel low in confidence, so that used to drag him down a lot. He doesn't have that inner turmoil anymore, it is better now. He used to feel a lack of confidence in himself. He was stuck around the 2640 rating level for a long time," says Ramesh.

Ramesh points out that Aravindh grew in confidence after seeing other Indian prodigies playing well and rising rapidly in the ratings and rankings charts.

"These days he's feeling more certain about himself. When you feel calm inside, in your mind, things work out better for you. In the last one year, he has been very consistent, gradually increasing his rating, crossing 2,700, which was a very important milestone. Then he started accelerating, and now he's close to 2720, which is very good.

"This tournament he played in is a rare invitation he got to play in a closed tournament with an elite field. But thanks to this win, most likely, he'll start getting invitations to play more closed tournaments in the future. I think that will drastically change his graph. Now he'll be feeling that I belong to this group of players. I'm good enough."





#freedomfromhunger.

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS OF KRBL LIMITED FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30 SEPTEMBER 2024 (₹in Lakh except as stated otherwise) Half Year ended Quarter ended Quarter ended 30-09-2024 30-09-2024 30-09-2023 1,27,048 2,46,966 1,21,418 13,769 25,171 20,685 10.267 18,923 15,329

Particulars Total Income from Operations Net Profit from ordinary activities before tax Net Profit for the period after tax (PAT) Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period after tax and 10,164 18,854 15,294 Other Comprehensive Income after tax) Paid-up Equity Share Capital (Face Value per share Re. 1/-) 2,289 2,289 2,289 Earnings Per Equity Share (Face Value of Re. 1/- each) 4.49 8.27 6.52 1. Basic 4.49 8.27 6.52 2. Diluted

KEY NUMBERS OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS (₹ in Lakh) Half Year ended Quarter ended Quarter ended Particulars 30-09-2024 30-09-2024 30-09-2023 Total income from operations 1,27,048 2,46,966 1,21,418 13,760 25,150 20,670 Profit before tax 10,258 18,902 15,314 Profit after tax

> For and on behalf of Board of Directors of KRBL Limited

Anoop Kumar Gupta Joint Managing Director DIN: 00030160

Regd. Office: 5190, Lahori Gate, Delhi-110006 CIN: L01111DL1993PLC052845, Email: investor@krblindia.com, website: www.krblrice.com, Tel.: +91-11-23968328, Fax: +91-11-23968327

financialexp.epapr.in

Place: Noida

Date: 13 November 2024

The above is an extract of detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the company's website viz. www.krblrice.com.

New Delhi

APOORVA LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN: L74899DL1983PLC016713; Ph. No: 0120-;4372849 E-mail: apporvaleasing@gmail.com; Website: www.apoorvaleasingfinance.com Regd. Off: Block-34, House no. 247, Trilokpri, Delhi-110091 Corp. Off:C-1/9, Sec-31, Noida, Uttar Pradesh-201301

Extract of Standalone and consolidated Financial Results for the Quarter and half year ended on 30th Sep., 2024

					A	mount in Lacs		
		Standalone			Consolidated			
Particulars	Quarter Ended on 30.09.2024	Year to date on 30.09.2024	Quarter Ended on 30.09.2023	Quarter Ended on 30.09.2024	Year to date on 30.09.2024	Quarter Ended on 30.09.2023		
	Unaudited	Uanudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited		
Total Income from Operations (net)	67.43	135.26	129.97	70.91	138.74	133.93		
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or								
Extraordinary items#)	51.12	91.46	112.46	54.54	94.82	116.34		
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or								
Extraordinary items#)	51.12	91.46	112.46	54.54	94.82	116.34		
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or								
Extraordinary items#)	38.25	68.44	84.16	40.60	70.74	86.83		
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss)								
for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after								
tax)]	41.16	57.62	72.73	39.61	56.30	74.40		
Paid-up equity share capital								
[Face value Rs. 10 per share]	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49		
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued								
operations) -								
Basic:	0.19	0.34	0.42	0.20	0.35	0.43		
Diluted:	0.19	0.34	0.42	0.20	0.35	0.43		

Notes:

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the three months ended and year ended on 30th September .2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and consolidated Financial Results for the three months ended on 30th September, 2024 are available on the Stock Exchange website www.bseindia.in and the Company's website www.apoorvaleasingfinance.com.

- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable

Apoorva Leasing Finance and Investment Company Limited

Atul Singh Tyagi Managing Director DIN: 01335008

APOORVA LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN: L74899DL1983PLC016713: Ph. No: 0120-:4372849 E-mail: apporvaleasing@gmail.com; Website: www.apoorvaleasingfinance.com Regd. Off: Block-34, House no. 247, Trilokpri, Delhi-110091 Corp. Off:C-1/9, Sec-31, Noida, Uttar Pradesh-201301

Extract of Standalone and consolidated Financial Results for the Quarter and half year ended on 30th Sep., 2024

		Standalone			Consolidated	mount in Lacs	
		Standalone			Consolidated		
Particulars	Quarter Ended on 30.09.2024	Year to date on 30.09.2024	Quarter Ended on 30.09.2023	Quarter Ended on 30.09.2024	Year to date on 30.09.2024	Quarter Ended on 30.09.2023	
	Unaudited	Uanudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	
Total Income from Operations (net)	67.43	135.26	129.97	70.91	138.74	133.93	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or							
Extraordinary items#)	51.12	91.46	112.46	54.54	94.82	116.34	
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or							
Extraordinary items#)	51.12	91.46	112.46	54.54	94.82	116.34	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or							
Extraordinary items#)	38.25	68.44	84.16	40.60	70.74	86.83	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss)							
for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after							
tax)]	41.16	57.62	72.73	39.61	56.30	74.40	
Paid-up equity share capital							
[Face value Rs. 10 per share]	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	1,997.49	
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued							
operations) -							
Basic:	0.19	0.34	0.42	0.20	0.35	0.43	
Diluted:	0.19	0.34	0.42	0.20	0.35	0.43	

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the three months ended and year ended on 30th September, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and consolidated Financial Results for the three months ended on 30th September, 2024 are available on the Stock Exchange website www.bseindia.in and the Company's website www.apoorvaleasingfinance.com.

- Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable

Atul Singh Tyagi Managing Director DIN: 01335008

Apoorva Leasing Finance and Investment Company Limited

Regd. Office Tel: 011-42475489, I STATEMENT OF PROFIT	CIN: L3 R-489, GF-6 Email: prhoto	ing1983@gr	3PLC314402 der Nagar, New mail.com, Websi	te: ww	w.prhc	olding.in D 30.09.20		thousands	
	60	Quarter end	ed		Half Ye	Year Ended			
Particulars	Quarter ended 30.09.2024	Preceeding Quarter Ended 30.06.2024	Corresponding Quarter Ended 30.09.2023	600	Year ded .2024	Correspondin Half Year ended 30.09.2023		Previous Year Ended 31.03.2024	
	Un-audited	Un-audited	Un-audited	Un-audited		Un-audited		Audited	
Total Revenue	5,449.89	31.72	(785.21)	5.4	18.15	13	3.13	10,099.38	
Total Expenses	322.47	287.51	272.30	60	19.98	56	4.08	1,099.17	
Exceptional items	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	
Extraordinary Items	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	
PROFIT BEFORE TAX	5,127,42	(255.78)	(1,057.51)	34,8	71.63	(430	(94)	9,000.21	
Tax Expense Profit (Loss) for the period from continuing	0.00	0.00	0.00		0.00	1 %	0.00	1289.11	
operations	5127.42	(255.78)	(1.057.51)	4,8	71.63	(430	0.94)	7,711.10	
Profit (Loss) from discontinuing operations	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	
Tax Expense of discontinuing operations Profit (Loss) from discontinuing operations	0.00	0.00	0:00		0.00	8	0,00	0.00	
(after tax)	0.00	0.00	0.00		0.00	1 9	0.00	0.00	
Other Comprehensive Income	0.00	0.00	0.00		0.00	_ = 9	0.00	0.00	
Total Comprehensive Income	5,127.42	(255,78)	(1.057.51)	4,8	71.63	(430	(94)	7,711.10	
Earning per Share	2.71	(0.14)	(559.53)	25	77.58	(228	(01)	4.08	
	STATEMEN	T OF ASSET	S & LIABILITIES	5		(F	ts. in	thousands	
Parti			30.09.2024 Audited)		T 31.03.2024 (Audited)				
Assets				-	- 115		-	1.0	
Total non-current assets						2,033,34		22,038.84	
Total current assets					1000	9,397.62		24,673.23	
Total Assets					5	1,430.96		46,712.08	
Equity and liabilities					1 33	100			
Total equity					- 5	0.624.42		45,752.79	
Total current liabilities						26.80		179.53	

No investor's complaint was received & No complaint pending at the beginning or end of Quarter / Year. Results were taken on record by Audit Committee & Board of Directors in meetings held on 13:11:2024.

Shares stand Listed at MSEI & CSE.

Total equity and liabilities

Previous Year's / Quarterly figures have been regrouped i rearranged, wherever necessary, Paid-up Capital = 18.90,000.00 equity shares of Rs. 10!-= Rs. 1,89,00,000!-The above is an extract of the the detailed format of Quarterly & Half-yearly un-Audited financial results filed with stock exchanges un 33 of

SEBI (LODR). The full format is available on the website of stock exchanges, www.msei in and the company's website www.prhoiding.in 13.11.2024 SAKSHI GUPTA - WTD & CFO DIN 009773654 Members are requested to kindly Update their Contact details, Address, PAN, Email, Mobile, etc. for your company's updates, announcements. results, reports, correspondence, etc.

सिद्र ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड eflaralyer1.34102DL1985PLCO20156 रति ऑफ: अप-13, एस/एक हेटर कैलास-1, गई दिल्ली-193348 मिल आर्थी: sihindia1985@gmail.com, वेबसाहट: www.sidhgroup.in 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और अर्घ वर्ष के लिए

विवरण (नीचे नोट वेखें)	तिमाही समान (30 / 09 / 2024) (अनलेकापरीवित)	पिछली दिमाडी समाप्त (30/06/2024) (अनलेखास्टीकेट)	विक्रले वर्ष (30/09/2023) में समाप्त हुए संगत 3 महीने (अनलेखापरीक्षित)	वर्ष समाप्त (30/03/2024) (लेखापरीकित)
🏌 परिघालन से कुल आय	0.00	0.00	4.05	11.46
 अधि के लिए शुद्ध लाग / (हानि) (कर से पहले, असाधारण औरध्या असाधारण मदें) 	-2.60	-2.10	0.00	124
 कर से फाले की अविषे के लिए शुद्ध लाम/(शामि) (असाधारण और/या असाधारण गर्दों के बाद') — 	2.93	-2.10	0.68	124
 कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाग/(झाँने) (असाधारण और/बा असाधारण नदों के बाद) 	-2:90	-2.10	0.69	124
अविधि के लिए कुल व्यापक आय (कर के बाद की अविधि के लिए लाम/(शानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिला	-2.63	-2.10	0.69	124
🐔 इक्थिटी शेवर पूजी	296.23	256.23	299.23	256.23
 फिछले वर्ष की लेखापरेंखित बैलेंस शीट में दशाए अनुसार रिजर्व (पुनर्मृत्यांकन रिजर्व को छोड़कर) 	0.00	0.00	000	000
 प्रति शेयर आय (६/- रुपये प्रत्येक) (जारी जीर बंद परिचालन के लिए) मूल २ मलला: 	-0.009	-0.007	0.562	0.004

। उपरोक्त सेवी (सुवीबद्धता और अना प्रकटीकरण आवायकताएँ) विनिवमन 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टीक एक्समेंज में दाखिल तिमाही विसीय परिणामों के विस्तृत प्रास्त्य का एक अंश है। तिमाही /अर्थवार्षिक विसीय परिणामी का पूरा प्रास्त्य स्टीक एक्सबेज(अं) और सधीबद्ध इकाई की वेबसाइटों पर उपलब्ध है।

१ लेखांकन नीतियाँ में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाग/हानि, कुल व्यापक आप या किसी अन्य प्रासमिक वितीय मदी पर प्रमाव का

खुलासा फुटनोट के मध्यम से किया जाएगा। असाधारण और / या असाधारण मदों को इंत-एएस नियमों/एएस नियमों के अनुसार लाम और टानि के विवरण में समायोजित किया जाता है, जो भी लागू हो।

सिद्ध औटोमोबाइल्स तिमिटेड के लिए अनिल शर्मा पदनामः प्रकंप निदेशक

बीआईएन: 02928210

51,430.96

46,712.05

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 14.11.2024

> IDBI BANK CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेडः 8वीं मंजिल, फेज-बी, ब्लॉक-2, एनबीसीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स, किदवई नगर, (पूर्व), नई दिल्ली 110023, दूरभाषः 011-69297171

कब्जे का नोटिस [नियम 8(1)]

जबिक अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **आईडीबीआई बैंक लि.** की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपिठत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 (2002 का संख्याक 54) के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20.08.2024 को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी श्री प्रेम शंकर गिरि और श्रीमती मीनाक्षी पत्नी प्रशांत गोस्वामी को नोटिस में वर्णित बकाया राशि रु. 13,85,198.32/- (रुपये तेरह लाख पिच्यासी हजार एक सौ अट्ठानवे और बत्तीस पैसे मात्र) 09.07.2024 तक अतिरिक्त ब्याज और कान्नी खर्च के साथ उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था।

ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा दिनांक 13 नवम्बर 2024 को ले लिया है।

उधारकर्ता को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन-देन न करें तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी लेन-देन आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को रु. 13,85,198.32/— (रुपये तेरह लाख पिच्यासी हजार एक सौ अट्ठानवे और बत्तीस पैसे मात्र) 09.07.2024 तक अतिरिक्त ब्याज और कानूनी खर्च के

स्रक्षित सम्पत्ति के मोचन में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

संपत्ति का सभी भाग व अंश, **जिसमें छत / टेरेस अधिकारों के बिना पहली मंजिल, खसरा** नंबर 20 / 9 में से प्रोप नंबर 66 ए (नया नंबर –66 बी), गांव मटियाला, जिसे कॉलोनी ब्लॉक टी–एक्सटेंशन पार्ट–I, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059 के रूप में जाना जाता है, शामिल है। चौहददीः

पर्वः अन्य संपत्ति, **पश्चिमः** अन्य संपत्ति, **उत्तरः** गली नं. 10, **दक्षिणः** संपत्ति नं. 66–ए का भाग

वर्तमान और भविष्य में होने वाले एकल संरचना और तत्कालीन निमाण।

स्थानः नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी दिनांकः 14.11.2024 आईडीबीआई बैंक लिमिटेड गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 602, 6वीं मंजिल, जीरो वन आईटी पार्क, एसआर नंबर 79/1, घोरपडी, मुंडवा रोड, पुणे-(पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) 411036 ब्रांच ऑफ यूनिटः द्वितीय तल, फ्रेंड्स प्लाजा, एम-52/53, ईरुवर नगर, नई दिल्ली - 110065। सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्ति की बिक्री

वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पूनर्निर्माण और सूरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी बिक्री नोटिस, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित। एततद्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / बंधककर्ता(ओं) / गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास गिरवी रखा गया है। पूनावाल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 17 नवंबर 2023 से गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में बदल गया (पहले इसे मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था और मूल रूप से जेमनी हाउसिंग फाइनेंस पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी के नाम से निगमित किया गया था) (इसके बाद अधिनियम के अनुसार इसे 'सुरक्षित लेनदार' के रूप में जाना जाता है) जिसका कब्जा सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 13(2) के तहत नोटिस के अनुसार सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। सुरक्षित संपत्तियां ई—नीलामी के माध्यम से 17 / 12 / 2024 को 'जैसा है जा है', 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ है' के आधार पर बेची जाएंगी। इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई—नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तत नियम एवं शर्तों के लिए कपया जीएचएफएल / सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

क्रां. सं.		मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि (बी)	कब्जे की प्रकृति (सी)	संपत्ति का विवरण {डी}	आरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी का 10 प्रतिषत) {एफ}	ईएमडी जमा करने की तारीख (जी)	वृद्धिशील बोली (एच)	संपत्ति निरीक्षण दिनांक एवं समय (आई)	नीलामी की तारीख और समय (जे)	बाधाएँ / न्यायालय मामले, यदि कोई ज्ञात हों तो (ज्ञ)
1	HL00559000000005000860 डोड्डी सुरेश कुमार (उधारकती) दीपाली (सहउधारकती)	नोटिस दिनांकः 11/10/2023 कुल बकायाः रु.1536074.00 (पंद्रह लाख छत्तीस हजार चौहत्तर रुपये मात्र) 11/10/2023 तक देय प्राप्ति तक 11 प्रतिषत प्रति वर्ष ब्याज सहित।	IIIXI	ऑल दैट पीस एंड पार्सल गली नं.7, देवेंद्र कॉलोनी, एडिमन.40.स्क्वायर यार्ड्सिवमला विहार एक्सटेंशन—2 आंटी फार्म, तहसील—दादरी, जिला जी.बी नगर, उत्तर प्रदेश—201306।	17,32,500 / —	रुं. 1,73,250 / – (रुपये एक लाख तीहत्तर हजार दो सौ पचास मात्र)	16.12.2024 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	10.12.2024 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	17.12.2024 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं / खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी जांच करें और अतिरिक्त शुल्क, ऋणभार और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करें। संपत्ति से जुड़े सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली / पानी का बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है और नीलामी सेवा प्रदाता) सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से लॉगिन आईडी और पासवर्ड पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए, जो ई—बोली के लिए अनिवार्य है। पता— प्लॉट नंबर—68 तीसरी मंजिल गुडगांव हरियाणा—122003। हेल्पलाइन नंबर— 7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी . Support@bankeauctions.com, संपर्क व्यक्ति विनोद चौहान, ईमेल आईडी— delhi@c1india.com संपर्क नंबर— 9813887931।। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता केवल उनसे ही ई—नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छूक क्रेता / बोलीदाता को "गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड", बैंक—आईसीआई बैंक लिमिटेड के खाते में एनईएफटी / आरटीजीएस / डीडी के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) जमा करनी होगी। खाता संख्या—000651000460 और IFSC कोड-ICIC0000006,20, आर. एन. मुखर्जी रोड– कोलकाता—700001 किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक में 16/12/2024 को या उससे पहले खींचे और अपना नाम https://www.bankeauctions.com पर पंजीकृत करें और मुफ्त में उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई—नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर उनके पंजीकरण के बाद, इच्छक क्रेता / बोलीदाता को निम्निलिखत दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करने, ई—मेल करने और स्व—सत्यापित हार्ड कॉपी को पते पर भेजने की आवश्यकता होती है: दसरी मंजिल, फ्रेंडस प्लाजा, एम–52 / 53, ईश्वर नगर, नई दिल्ली – 110065 मोबाइल नंबर + 91 8588802671 और +91 9567626050 ई–मेल आईडी Rahul.rl@grihumhousing.com नियम व शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया ई–नीलामी में भाग लेने के लिए https://www.bankeauctions.com और www.grihumhousing.com पर जाएं। इस नोटिस को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम–2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटर को दिया गया 15 दिन का नोटिस भी माना जाना चाहिए। हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, (पूर्व में पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) दिनांकः 14.11..2024 स्थानः दिल्ली

रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः ८२०, अंतरिक्ष भवन, के.जी.मार्ग नई दिल्ली डीएल ११०००१ आईएन सीआईएनः L74899DL1992PLC050142, वेबसाइटः www.repl.global,

30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए असंपरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

ईमेलः secretarial@replurbanplanners.com

क्र.				स्टैंडः	अलोन		समेकित						
सं.	विवरण	तिमाही समाप्त			अर्ध वर्ष	अर्घ वर्ष समाप्त वर्ष समाप्त		तिमाही समाप्त			अर्घ वर्ष	वर्ष समाप्त	
		30.09.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)	30.09.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.06.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2024 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2024 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय	1,819.81	1,790.84	1,805.03	3,624.84	3,523,77	9,198.74	2,024.31	1.992.70	1.913.28	3.937.59	3.831.51	10,058.24
2	कर से पहले शुद्ध लाभ	508.38	492.22	447.10	955.51	908.72	1,770.90	519.75	523.45	461.80	981.56	953.12	1,895.71
3	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ	7.00	- 37		-100	100000		0.70	C. D.		100.00	- Char	
	(असाधारण मदों के बाद)	386.95	370.22	251.62	638.58	675.77	1,311,62	393.75	391.63	263.59	657.35	707.02	1,405.35
4	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [कर के बाद अवधि के लिए लाभ/(हानि) और अन्य	-			5 11-2					24	1000		
	व्यापक आय (कर के बाद) को मिलाकर]	379.51	358.46	247.45	626.97	663.81	1,294.95	386.43	379.82	270.74	657.18	895.51	1,389.28
5	इक्विटी पेडअप शेयर पूंजी	1,73125	1,734.25	1,731.25	1,734.25	1,734.25	1,734.25	1,734.25	1,734.25	1,734.25	1,734.25	1,734.25	1,734.25
6	प्रति शेयर आय (वार्षिकीकृत नहीं):			-	Langua Start			He	6,5 37,163,711			-	-
	मूल (रुपये)	2.23	2.13	1.45	368	390	7.56	2.27	2.26	1.52	3.79	4.06	8.10
	तरल (रुपये)	2.14	2.12	1.39	352	3.59	7.33	2.17	225	1.45	3.63	406	7.85

उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई तथा संस्तृति की गई तथा निदेशक मंडल द्वारा 12 नवंबर, 2024 को आयोजित अपनी—अपनी बैठकों में अनुमोदित किया गया 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के वित्तीय परिणामों की कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की गई है तथा उपरोक्त वित्तीय परिणामों पर असंशोधित समीक्षा रिपोर्ट जारी की गई है ? उपरोक्त 30 सितंबर 2024 को समाप्त अवधि के लिए सेबी (सूचीबद्धता और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर किए गए असंबद्ध स्टैंडअलोन और समेकित तिमाही परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक अंश है। असंबद्ध स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.repl.global पर उपलब्ध है।

रुद्राभिषेक एंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए

अध्यक्ष डीनः 01386739

जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 458–1/16, सोहना रोड, न्यू कोर्ट के सामने, गुरूग्राम –122001, हरियाणा, भारत CIN: L35999HR1998PLC033943, फोन नo. 0124-4233867-70, वेबसाइट: www.jmaindia.com: ईमेस आईडी: info@jmaindia.com

30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का उद्धरण

_					0.20					17.72	12020		(स्त. लाखों ग
	विवरण			स्टैंडा		कंसोलिडेटेड							
郡. 转		समाप्त तिमाडी 30.09.2024 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.06.2024 (अनंकेक्षित)	समाप्त तिमाही 30.09.2023 (अनंकेखित)	समाप्त छमाठी 30.09.2024 (अनंकेंब्रित)	समाप्त छमाडी 30.09.2023 (अनंकेंसित)	समाप्त वर्ष 31.03.2024 (अंकेसित)	समाप्त तिमाही 30.09.2024 (अनंकेशित)	समाप्त तिमाडी 30.06.2024 (अनंकेंसित)	समाप्त विमाही 30.09.2023 (अनंकेंसित)	समाप्त छमाठी 30.09.2024 (अनंकेंसित)	समाप्त छमाही 30.09.2023 (अनंकेक्षित)	समाप्त वर्ष 31.03.2024 (अंकेसित)
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	10119.41	10263.34	10271.55	20382.75	19816.13	42963.12	12864.68	13073.96	12880.06	25938.64	24846.95	54049.46
2	अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या असाधारण मदों से पहले)	527.50	511.37	634.48	1038.87	1122.51	2763.98	602.88	694.66	744.55	1297.54	1389.95	3487.53
3	अवधि के लिए शुद्ध लाग/(हानि) (कर से पहले, अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)	527.50	511.37	634.48	1038.87	1122.51	2763.98	602.88	694.66	744.55	1297.54	1389.95	3487.53
4	कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)	390.84	382.64	483.35	773,48	844.24	2089.05	423.32	513.02	543.09	936.34	1021.54	2600.57
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाम/(हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय शामिल)	381.90	454.42	523.40	836.32	931.33	2239.98	414.18	586.72	585,41	1000.90	1111.80	2754.76
6	भुगतान किए गए इविवटी शेयर पूंजी (प्रत्येक रू 2/- का अंकित मूल्य)	456.82	456.82	456.82	456.82	456.82	456.82	456.82	456.82	456.82	456.82	456.82	456.82
7	रिजर्व (पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में दिखाए गए पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर)						19239.44						22296.89
8	प्रति शेयर आय (असाधारण मदों के बाद) (प्रत्येक क्त 2/— का अंकित मूल्य) (गैर वार्षिकीकृत) बेसिक एंड डायल्यूटिड	1,71	1.68	2.12	3.39	3.70	9,15	1.82	2.21	2.34	4.03	4.39	11.21

स्थानः नोएडा

दिनांकः 12 नवंबर 2024

- उपरोक्त विवरण भारतीय प्रतिमृति और विनिमय बोर्ड (सुचियन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतार्थे) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अनुसार, स्टॉक एक्सचेज के साथ दर्ज 30 सितम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। इन परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.imaindia.com पर उपलब्ध है।
- पिछली अवधि के आकड़ों को जहां भी आवश्यक हुआ पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत/पुनःव्यवस्थित किया गया है।
 - 12 नवम्बर, 2024 और 13 नवम्बर, 2024 को आयोजित बैठक में उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखा समिति द्वारा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

जालंधर गोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड इस्ता/-

शुचि अरोड़ा

DIN: 00093201

निदेशक

तिथिः 13 नवम्बर, 2024

स्थानः गुरूग्राम

LIMITED

Regd. Office: 2050-2052, 2nd Floor, Plaza-II, Central Square, 20, Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi - 110006 E-mail: investors@dcm.in Phone: 011-41539170 CIN: L74899DL1889PLC000004

EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND SIX MONTH ENDED SEPTEMBER 30, 2024 [IN TERMS OF REGULATION 47 (1) (B) OF THE SEBI (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATION, 2015, AS AMENDED]

				Star	ndalone			Consolidated						
Sr. No.	10	For the quarter ended			Six Months ended		For the year ended	For the quarter ended			Six Mo	nths ended	For the year ended	
IVO.		Particulars September 30, 2024 Unaudited	June 30, 2024	30, 2023	September 30, 2024	September 30, 2023	March 31, 2024 Audited	September 30, 2024 Unaudited	June 30, 2024 Unaudited	September 30, 2023 Unaudited	September 30, 2024	September 30, 2023	March 31, 2024 Audited	
			Unaudited		Unaudited	Unaudited					Unaudited	Unaudited		
10	Total income from operations	20		74	- ×	213	358	1,663	1,844	1,782	3,507	3,569	7,084	
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax)	(195)	(259)	(277)	(454)	(441)	(68)	130	38	(7)	168	(9)	760	
3	Net Profit/(Loss) for the period after tax	(195)	(259)	(277)	(454)	(441)	(68)	72	(29)	(69)	43	(130)	520	
4	Total Comprehensive Income/(Expense) for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period after tax and Other Comprehensive Income/(Expense)]	(181)	(244)	(261)	(425)	(409)	(10)	86	(14)	(53)	72	(99)	581	
5	Equity Share Capital	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	1,868	
6	Other equity	10	(4)	83	8		(1,088)	19	a	(4)	0.00	€	209	
7	Earnings/ (loss) per equity share (EPS) of Rs. 10 each (not annualised) Basic and diluted	(1.04)	(1.38)	(1.48)	(2.43)	(2.36)	(0.36)	0.38	(0.15)	(0.37)	0.23	(0.70)	2.79	

Notes:

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meeting(s) held on November 13, 2024. The Limited Review Report of the Statutory Auditors has been filed with the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchanges (i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The details in prescribed format of the results are available on the website of Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website www.dcm.in.

For and on behalf of the Board

For DCM Limited

Vinay Sharma Managing Director

DIN: 08977564

Place: Delhi Date: November 13, 2024

www.readwhere.com